



भारतीय रेल (रेल मंत्रालय)
बनारस रेलइंजन कारखाना, वाराणसी-221004
INDIAN RAILWAYS (MINISTRY OF RAILWAYS)
BANARAS LOCOMOTIVE WORKS, VARANASI-221004

कायालय : महाप्रबन्धक(कार्मिक)

सं० : [DLW-BSB0GMP\(SSGC\)/5/2021](#)

दिनांक : /03/2022

सर्व संबंधित, बरेका, वाराणसी,

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/मु० एवं उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो,

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/इंजन, ब० रे० का०/वाराणसी,

वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक/कोलकाता, कैम्प कार्यालय/तिलक ब्रिज-नई दिल्ली,

संयुक्त सचिव-कर्मचारी परिषद, ब० रे० का०/वाराणसी,

जोनल सचिव-SC/ST एसोसिएशन, ब० रे० का०/वाराणसी,

अध्यक्ष-पिछडा वर्ग एसोसिएशन, ब० रे० का०/वाराणसी।

विषय : भंडार विभाग के एक्स कैडर पोस्ट मुख्य जहाजरानी निरीक्षक, पे मैट्रिक्स रु०- 44900-142400, पे लेवल-7 के 01(एक) पद को चयन द्वारा भरने के सम्बन्ध में।

भंडार विभाग के एक्स कैडर पोस्ट मुख्य जहाजरानी निरीक्षक (सी० एस० आई० एल०), पे मैट्रिक्स रु०- 44900-142400 के 01 (एक) पद को चयन प्रक्रिया द्वारा नामिका बनाने का विनिश्चय किया गया है, नामिका का आकार निम्न प्रकार से होगा-

कुल पद	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनारक्षित
01	--	--	01

- पात्रता** : स्टोर्स विभाग में कार्यरत कर्मचारी जो समान पे लेवल (लेवल-7) में तदर्थ रूप से कार्यरत हो अथवा निचले पे लेवल-6 में नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारी जिनकी दो वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, इस पद हेतु आवेदन के पात्र होंगे। अंतररेलवे स्थानांतरण पर आये कर्मचारियों के केस में दो वर्ष की सेवा बरेका में ज्वाइन करने की तिथि से माना जायेगा।
- चयन प्रक्रिया** : चयन प्रक्रिया में व्यवसायिक योग्यता की लिखित परीक्षा एवं भारतीय रेल स्थापना मैनुअल भाग-1 संशोधित संस्करण 1999 के अध्याय-1 खण्ड-ख में दिए गए निर्देश एवं रेलवे बोर्ड के तत्सम्बन्धित लागू निर्देशों के अधीन होगी।

क्रम सं०	शीर्षक	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
01	लिखित परीक्षा	50	30
02	रिकार्ड ऑफ सर्विस	30	
	कुल	80	48

(प्राधिकार: भारतीय रेल स्थापना मैनुअल भाग-1 का ए० सी० एस० 0-183 दिनांक 22/03/2006)

नोट- सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे। गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के नियत अंक का एक तिहाई निगेटिव अंक काट लिए जायेंगे ।

क्रमशः

3. पाठ्यक्रम : -

- समुद्री, वायु एवं स्थल मार्ग से आयात किए गये कार्यों के लिए क्लीयेरेन्स हेतु प्रक्रिया एवं नियमों की पूर्ण जानकारी।
- आयातित माल शीघ्र क्लीयेरेन्स के लिए क्षेत्रिय रेलवे, कस्टम डाक और अन्य प्राधिकारियों से प्रभावी सम्पर्क करने की योग्यता हो।
- माल वाहक जहाज क्लयेरेन्स के लिए समन्वय की योग्यता हो।

4. परीक्षा कार्यक्रम-

परीक्षा	स्थान	दिनांक	समय
लिखित	प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, बरेका/वाराणसी	05.05.2022	11:00 बजे

5. उपरोक्त पद का चयन परिणाम मेरिट के आधार पर होगा ।

6. मुख्य शर्तें :

- उक्त अधिसूचित पद पर चयन के फलस्वरूप इस पद पर तैनात किए जाने पर भी उनका लियन मूल संवर्ग में बना रहेगा।
 - इस पद पर कार्य करने की वजह से दिए जाने वाले वेतन इत्यादि का लाभ उनके मूल संवर्ग के पद एवं पे मैट्रिक्स में वेतन देय नहीं होगा।
 - उनके मूल संवर्ग में इन सेवाओं की वजह से उच्चतर वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा।
 - इस पद पर लगातार बने रहना उनकी निरन्तर उपयुक्तता पर निर्भर होगा। जिसकी निश्चित समयान्तराल पर जाँच की जाएगी।
 - यह पद एक एक्स कैडर पद हैं, जिसकी अवधि 05 (पाँच) वर्ष की होगी, यह व्यवस्था पूर्ण रूपेण अस्थाई तौर पर की गई हैं एवं रेलवे प्रशासन को यह पूर्ण अधिकार होगा कि किसी भी समय बिना कारण बताए 05 (पाँच) वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी कर्मचारी को अपने मूल कैडर में वापस किया जा सकता हैं।
7. इच्छुक पात्र कर्मचारी जो उपर्युक्त अर्हता रखते हो, अपना आवेदन संलग्न प्रोफॉर्मा (अनुबन्ध-ख) को पूर्ण रूप से भरकर दिनांक- 14.04.22 तक इस कार्यालय में नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के साथ उचित माध्यम द्वारा भेजे।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ पर्यवेक्षक/अधिकारी, कृपया इसका व्यापक प्रचार/प्रसार करें तथा इसकी एक प्रति सूचना-पट्ट पर भी अवश्य चस्पा करें।
9. इस अधिसूचना को बरेका के बेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मु0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ आँकडा प्रबंधक, बरेका/वाराणसी - इस आशय के साथ अधिसूचना को ब 0 रे0 का0 के वेवसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
2. उप मु0 सर्तकता अधिकारी, बरेका/वाराणसी ।
3. गोपनीय अधीक्षक, म 0 प्र 0(का0) कार्यालय।
4. प्राचार्य, प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, बरेका/वाराणसी।

Digitally Signed by

Rajkumar Singh (कार्मिक)

Date: 23-03-2022 15:31:41

Reason: Approved